

03.02.2026

**To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG**

**The General Manager – DSC
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Tel No. 022-22722039/37/3121
Security Code: 500119**

Dear Sir,

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published in Business Standard (English and Hindi Edition) dated 3rd February, 2026 pertaining to the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2025, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The advertisement copies will also be made available on the Company's website at the weblink www.dhampursugar.com.

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

**Aparna Goel
Company Secretary
M. No. 22787**

PATEL RETAIL LIMITED

Patel Retail Limited

CIN NO: L52100MH2007PLC171625

Registered Address: Plot No. M-2, Anand Nagar, Additional MIDC, Ambarnath (E), Ambarnath, Maharashtra, India, 421506

Email: cs@patelrpl.net

NOTICE

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3RD QUARTER & NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025.

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		Dec 31, 2025	Sept 30, 2025	Dec 31, 2024	Dec 31 2025	Dec 31 2024	
		Unaudited	unaudited	unaudited	unaudited	unaudited	
1.	Total Income from Operations (including other income)	31112.08	22543.19	22959.35	71974.62	60457.47	82599.01
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)	1599.24	1351.98	793.25	3878.42	2413.18	3432.08
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	1599.24	1351.98	793.25	3878.42	2413.18	3432.08
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items#)	1200.42	1013.96	582.96	2906.81	1810.09	2527.81
5.	Total Comprehensive Income for the period	1202.77	1011.29	582.97	2903.80	1807.69	2517.11
6.	Equity Share Capital	3340.05	3340.05	2488.25	3340.05	2488.25	2488.25
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						10969.19
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic:	3.59	3.59	2.49	10.08	7.40	10.30
	2. Diluted:	3.59	3.59	2.49	10.08	7.40	10.30

1. The unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on **February 02, 2026**.

2. The above is an extract of the detailed format of standalone financial results for the 3rd quarter and nine months ended December 31, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone results for the quarter ended on **December 31, 2025** are available on the websites of the Stock Exchange(s) <https://www.nseindia.com> and <https://www.bseindia.com/> and the Company Website (<https://patelrpl.in/investor-relations/>).

आर ई सी

REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं

Endless energy. Infinite possibilities.

Sd/-

Hitesh B Sawani

(Chief Financial Officer)

Monday, February 02, 2026

Ambarnath, Thane, Mumbai, Maharashtra



आर ई सी

REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आर ई सी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महाजन उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)

Regd. Office : Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi 110003
Corporate Office : Plot No. I-4, Sector-29 Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 4441300 | Website: www.recindia.nic.in | CIN: L40101DL1969GOI005095

NOTICE TO THE BOND HOLDERS OF SERIES 220-B FOR EXERCISING PUT OPTION

"Put Option" in respect of 7.69% REC Limited 2033 Series 220-B sent to Bondholders pursuant to the relevant clauses of the Debenture Trust Deed Pursuant to (i) the relevant clauses of the Debenture Trust Deed (DTD) entered into by **REC Limited ("the Company")** and **Beacon Trusteeship Limited**, Bond Trustee, and (ii) the terms and conditions stated in the Private Placement Offer Letter ("**Offer Document**"), the Bondholders of Series 220-B – 7.69% REC Limited 2033 Unsecured, redeemable, non-convertible, non-cumulative, taxable bonds in the nature of debentures of face value of ₹1,00,000 each aggregating to ₹1600.10 crore having ISIN: INE020B08EG2, are eligible to exercise, at their sole discretion, the Put Option in respect of all or less than all of the Bonds held by them, in accordance with the terms of the DTD and the Offer Document.

The Record Date for the purpose of redemption of the aforesaid Bonds pursuant to the exercise of the Put Option by the Bondholders and the Put Option Exercise Period, as per the terms and conditions of the Offer Document, are provided below:

Particulars of Debentures	Amount Outstanding	Record Date	Put Option Exercise Period	Put Option Date (Redemption and Interest Payment Date)	Put Option Exercise Price
Series 220-B — 7.69% REC Limited 2033 Unsecured, Redeemable, Listed, Senior, Taxable, Non-Convertible Bond	₹ 1600.10 crore	March 16, 2026	March 11, 2026 to March 13, 2026	March 31, 2026	₹ 1,00,000 per Bond

A notice in this respect shall be sent by the company to all the Bond Holders. Bond holders are requested to take note of the same.

Sd/-
For REC Limited

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025							
(₹ in Crores)							
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31/Dec/25 (Unaudited)	30/Sep/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Dec/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/25 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	673.57	713.95	593.80	2,136.25	1,862.46	2,674.15
2.	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	37.21	(12.53)	21.71	25.98	3.88	75.11
3.	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	37.21	(12.53)	21.71	25.98	3.88	75.11
4.	Net profit / (loss) for the period after tax	26.54	(7.82)	15.18	19.63	3.37	52.42
5.	Total comprehensive income for the period	27.52	(7.06)	15.71	20.99	3.72	52.55
6.	Paid-up equity share capital	64.30	64.30	65.38	64.30	65.38	65.38
7.	Other equity (as at year end)	-	-	-	-	-	1,087.08
8.	Earnings per equity share (EPS) (of ₹ 10/- each) (* not annualised) :						
	a) Basic (₹ per share)	4.11*	-1.23*	2.31*	3.01*	0.49*	7.98
	b) Diluted (₹ per share)	4.11*	-1.23*	2.31*	3.01*	0.49*	7.98

Notes:

1

These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Parent Company in their respective meetings held on February 02, 2026. The joint statutory auditors have carried out a limited review of these financial results.

2

India Ratings & Research (a Fitch Group company) has reaffirmed the Company's long-term loan, fixed deposit, and issuer ratings at AA-, and has also reaffirmed the A1+ rating for the working capital limits.

3

On November 21, 2025 the Government of India notified four labour codes i.e. the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 ('New Labour Codes') consolidating 29 existing labour laws. The Ministry of Labour & Employment published draft Central Rules and FAQs to enable assessment of financial impact due to these changes in regulations. Based on information available and guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India, the Group has assessed impact of these changes and is of the view that there will be no material financial impact of the same. It continues to monitor the developing regulatory scenario, including finalisation of Central/ State Rules and clarifications from the Government on other aspects of labour codes. The accounting effect of such developments, if any, would be appropriately considered.

4

The full format of the standalone and consolidated financial results are available on stock exchange websites i.e <https://www.nseindia.com>, <https://www.bseindia.com> and on Company's website <https://www.dhampursugar.com>.

The particulars in respect of Standalone results are as under:

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	31/Dec/25 (Unaudited)	30/Sep/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Dec/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/25 (Audited)
Total revenue	673.55	713.01	593.67	2,135.19	1,861.68	2,673.96
Profit before tax	37.14	(13.48)	21.50	24.77	3.28	74.84
Profit after tax	26.47	(8.77)	14.97	18.42	2.77	52.15
Other comprehensive income (OCI)	0.98	0.76	0.53	1.36	0.35	0.13
Total comprehensive income	27.45	(8.01)	15.50	19.78	3.12	52.28

Place : New Delhi

Dated : February 02, 2026

For and on behalf of the Board

Sd/-

Gaurav Goel

Vice Chairman & Managing Director

Mishli

Premium Quality Sugar

Mushti Khatol

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office : Distt. Bijnor, Dhampur (U.P.) - 246761

CIN - L15249UP1933PLC000511,

Phone No - 011-41259400

Email: investordesk@dhampursugar.com

Website: www.dhampursugar.com

SINCLAIRS

HOTELS & RESORTS

Extract of the Unaudited Financial Results
for the quarter and nine months ended 31st December 2025

(₹in lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2025 Unaudited	Nine month Ending 31.12.2025 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2024 Unaudited	Year Ended 31.03.2025 Audited
Total Income	2,070.60	4,872.09	1,478.60	5,961.36
Net Profit for the period before Tax	735.77	1,243.88	156.84	1,781.46
Net Profit for the period after Tax	576.53	991.42	112.14	1,399.68
Total Comprehensive Income for the period	589.20	999.69	111.74	1,390.88
Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹2)	1,025.20	1,025.20	1,025.20	1,025.20
Other Equity (excluding Revaluation Reserve) in the audited balance sheet as at 31st March 2025				10,234.72
Earnings per share (of ₹2/- each) (not annualised for quarters)				
- Basic and diluted earning per share (₹)*	1.12	1.93	0.22	2.73

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2025, filed with CSE, BSE and NSE, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the website of the respective stock exchanges and on Company's Investor Information website (www.sinclairsindia.com).

b) The Company does not have any exceptional items to report in above periods.

By order of the Board

Navin Suchanti

Chairman

DIN: 00273663

Place: Kolkata

Date : 2nd February 2026

Quarter 3 FY 26
Profit after Tax
₹576.53 lakh
up by 414%

EBIDTA

Quarter ended
31st December 2025

₹1013.19 lakh

Nine months ended
31st December 2025

₹1988.67 lakh

Sinclairs Hotels Limited

CIN: L55101WB1971PLC028152

Registered Office: 147, Block G, New Alipore, Kolkata 700 053

t: 9007540731, e: cs@sinclairshotels.com, www.sinclairsindia.com

BURDWAN • DARJEELING • DOOARS • GANGTOK • KALI

<div><div><div><div><div></div><div>SINCLAIRS</div></div><div><div>HOTELS & RESORTS</div></div></div></div></div>	
<div><div>Exceptional Venues. Unmatched Hospitality.</div><div>MICE Retreats.</div><div>Boutique luxury across ten destinations.</div></div>	
<div><div>Ten Exciting Destinations. One Signature Brand.</div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Darjeeling</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Gangtok</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Retreat Dooars</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Retreat Kalimpong</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Retreat Ooty</div></div></div></div></div>	
<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Bayview Port Blair</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Burdwan</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Siliguri</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Udaipur</div></div></div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div>Sinclairs Palace Retreat Udaipur</div></div></div></div></div>	
<div><div>Plan Your Event With Us</div><div>9830452752, 9674457868, 9257108783, 1800 1202 67000 (Toll Free)</div><div>marketing@sinclairshotels.com</div><div>www.sinclairshotels.com</div><div>9257108783</div></div>	

नरवणे के संस्मरण पर लोक सभा में हंगामा

बीएस संवाददाता

लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों के बारे में एक समाचार पत्रिका के लेख का बार-बार उल्लेख किए जाने के बाद सोमवार को सदन के दोपहर के सत्र को दो बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष के नेता के उक्त लेख का उल्लेख किए जाने का विरोध किया। मगर गांधी के अपने रुख पर अड़े रहने के बाद लोक सभा की कार्यवाही शाम 4 बजे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सोमवार को संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। लोक सभा में गांधी ने अपना भाषण यह कहते हुए शुरू किया कि वह सबसे पहले पिछले लोक सभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संसद सदस्य तेजस्वी सुर्ग्य द्वारा कांशस पर राष्ट्रवाद के आरोपों का जवाब देना चाहेंगे। गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के ‘संस्मरण’ के उद्धरण के साथ शुरूआत की। इसमें नरवणे ने 2020 में भारत-चीन सैन्य संघर्ष का जिक्र किया है।

जैसे ही गांधी ने नरवणे की किताब का उल्लेख किया और लद्दाख में सीमा पर झड़पों में देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत के पूर्व सेना प्रमुख के संस्करण को पढ़ना की कोशिश की वैसे ही रक्षा मंत्री सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और अन्य भाजपा सांसदों ने विरोध किया।

सिंह ने तर्क दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है और गांधी के बयान का कोई ‘प्रामाणिक स्रोत’ नहीं है। गांधी ने तर्क दिया कि वह अप्रकाशित संस्मरणों के बारे में एक समाचार पत्रिका के लेख के आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं। लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की ‘कार्यविधि और कार्य संचालन नियम’ का हवाला देकर गांधी को इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सदन में मौजूद थे। लगभग 50 मिनट तक हंगामा जारी रहा जिस पर लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही से असंबंधित मामले पर किसी भी पुस्तक या समाचार पत्र की कतार को उद्धृत नहीं किया जा सकता है। मगर गांधी ने जोर देकर कहा कि यह दस्तावेज प्रामाणिक है और वह इससे उद्धृत कर सकते हैं। सिंह ने पूछा कि अगर आरोप के अनुसार किताब प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई तो नरवणे ने अदालत का रुख क्यों नहीं किया। इसके



लोक सभा में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी

■ राहुल गांधी के नरवणे की किताब का उल्लेख करने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने किया कड़ा विरोध

■ सदन से निकलने के बाद और संसद भवन परिसर में किरेन रीजीजू ने मीडिया से कहा कि गांधी ने लोक सभा अध्यक्ष के फैसले का उल्लंघन किया

बाद सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर गांधी ने फिर से इस मुद्दे को उठाया जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। रीजीजू ने कहा कि गांधी को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो सेना की गरिमा कम करती हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने उनका समर्थन किया। गतिरोध जारी रहने पर बिरला ने सदन को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

शाम 4 बजे सदन फिर से शुरू हुआ जिसमें लोक सभा के चेयरपर्सन की समिति के सदस्य भाजपा सांसद जगदीशका पाल (बिरला नहीं) कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी ने जोर देकर कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मुझे समझ में आता है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए यह असहज है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानता हूँ। अगर यह असहज नहीं होता तो वे मुझे बोलने देते मगर तथ्य यह है कि वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि वे असहज हैं।’ इसके बाद अध्यक्ष ने सदन कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन से निकलने के बाद और संसद भवन परिसर में रीजीजू ने मीडिया से कहा कि गांधी ने लोक सभा अध्यक्ष के फैसले का उल्लंघन किया और सदन का समय बर्बाद किया। रीजीजू ने कहा कि

अध्यक्ष स्पीकर बिरला ने सदन में फैसला दिया था कि केवल प्रामाणिक दस्तावेजों को ही उद्धृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्हें लोक सभा में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक से कुछ बातों का उद्धृत करने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि इसमें 2020 में चीन के साथ संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सिंह पर सेना को ‘नीचा दिखाने’ का आरोप है। उन्होंने कहा कि सरकार एक वाक्य से डरी हुई है जिसे वह पूर्व सेना प्रमुख की किताब से उद्धृत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह इसे सदन में बताएंगे। गांधी ने कहा, ‘नरवणे जी ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह का सम्पर्क रूप से लिखा है जो एक लेख में प्रकाशित हुआ है। मैं उस लेख से उद्धृत कर रहा हूँ। वे डरे हुए हैं क्योंकि अगर यह सामने आ गया तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की हकीकत सामने आ जाएगी। जब चीन हमारे सामने है और आगे बढ़ रहा था तो 56 इंच की छाती का क्या हुआ?’ गांधी ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख को उनकी पुस्तक प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। भाजपा प्रवक्ता अनिल बलुनी ने बाद में कहा कि गांधी ने संसद की गरिमा कम की है और लोक सभा में अपने झूठे आरोपों से भारतीय सैनिकों के मनोबल को ठेस पहुंचाई है।

दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार

दुनिया के प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 68वें ग्रैमी अवॉर्ड समारोह में रविवार को दलाई लामा ने ऑडियो बुक, कथावाचन और किस्सागोई (स्टोरीटेलिंग) श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। यह दलाई लामा का पहला ग्रैमी पुरस्कार है। उन्होंने इस श्रेणी में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश केवनजी ब्राउन जैक्सन को पीछे छोड़ा। दलाई लामा को यह पुरस्कार मिलने पर चीन ने ऐतराज जताया है। इसकी आलोचना करते हुए चीन ने कहा कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता द्वारा इस सम्मान का उपयोग ‘चीन विरोधी गतिविधियों’ को अंजाम देने के लिए किए जाने का कड़ा विरोध करता है।

मुख्य समारोह से पहले होने वाला प्रारंभिक पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस शहर के पीकांक थिएटर में आयोजित किया गया। इस दौरान 86 ग्रैमी पुरस्कार दिए जाने हैं। दलाई लामा ने ‘ऑडियोबुक नैरेशन’ श्रेणी में अपनी एल्बम ‘मेडिटेशंस: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा’ के लिए यह पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने यह पुरस्कार मिलने पर आधार व्यक्त करते हुए कहा, ‘मैं इस सम्मान को कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं इसे व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि हमारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी की मान्यता के रूप में देखता हूँ।’ चीन ने दलाई लामा को दिए गए ग्रैमी पुरस्कार की निंदा करते हुए कहा कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता द्वारा इस सम्मान का उपयोग चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किए जाने का कड़ा विरोध करता है। दलाई लामा को पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चीन के इस आरोप को दोहराया कि 90 वर्षीय आध्यात्मिक नेता धर्म के नाम पर अलगाववादी गतिविधियां चला रहे हैं।



अपनी एल्बम ‘मेडिटेशंस: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा’ के लिए यह पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने यह पुरस्कार मिलने पर आधार व्यक्त करते हुए कहा, ‘मैं इस सम्मान को कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं इसे व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि हमारी साझा वैश्विक जिम्मेदारी की मान्यता के रूप में देखता हूँ।’ चीन ने दलाई लामा को दिए गए ग्रैमी पुरस्कार की निंदा करते हुए कहा कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता द्वारा इस सम्मान का उपयोग चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किए जाने का कड़ा विरोध करता है। दलाई लामा को पुरस्कार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चीन के इस आरोप को दोहराया कि 90 वर्षीय आध्यात्मिक नेता धर्म के नाम पर अलगाववादी गतिविधियां चला रहे हैं।

ममता ने लगाया अपमानित करने का आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के साथ सोमवार को बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं। बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर उनके प्रतिनिधिमंडल को अपमानित करने का आरोप लगाया।

पार्टी के अनुसार, विरोध के प्रतीक के रूप में काले शॉल ओढ़े हुए तृणमूल सुप्रभो ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के एसआईआर प्रभावित परिवारों के 12 सदस्यों के साथ यहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मुलाकात की।

KOTHARI MISSION
SUPER FINE VEST
PERFECT DRESSING
का शुभारंभ

विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण

एनबीएफसी - इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण कंपनी

क्रुण संवितरण

₹41,347 करोड़
30.19%
वर्ष दर वर्ष की वृद्धि

क्रुण स्वीकृतियां

₹1,39,152 करोड़
51.00%
वर्ष दर वर्ष की वृद्धि

प्रचालन से राजस्व

₹9,587.54 करोड़
28.41%
वर्ष दर वर्ष की वृद्धि

कर उपरांत लाभ

₹2,053.06 करोड़
3.62%
वर्ष दर वर्ष की वृद्धि

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही/नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल तथा समेकित) का सार | (₹. करोड़ में)

विवरण	एकल			समेकित		
	समाप्त तिमाही (31/12/2025 अलेखापरीक्षित)	31/12/2024 (अलेखापरीक्षित)	31/12/2023 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौ माह (31/12/2025 अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौ माह (31/12/2024 अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष (31/12/2025 अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	3,431.20	3,219.03	2,760.23	9,587.54	7,466.30	10,311.29
अवधि का शुद्ध लाभ (कर एवं अपवादात्मक मदों से पूर्व)	788.49	954.71	931.66	2,600.43	2,616.40	3,636.66
अवधि का कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवादात्मक मदों के उपरांत)	788.49	954.71	931.66	2,600.43	2,616.40	3,636.66
अवधि का कर उपरांत शुद्ध लाभ (अपवादात्मक मदों के उपरांत)	713.00	709.83	735.03	2,053.06	1,981.40	2,709.14
अवधि की कुल समेकित आय (अवधि का लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य समेकित आय (कर उपरांत) को मिलाकर)	960.61	823.09	841.24	1,469.84	1,916.96	2,544.34
प्रदत्त साम्य शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति)	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90	2,001.90
अन्य साम्य (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़ कर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15,967.89	लागू नहीं
प्रतिभुक्ति प्रीमियम खाता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.26	लागू नहीं
निवल मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	17,969.79	लागू नहीं
प्रदत्त उधार पूंजी/बकाया उधार*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	107,280.61	लागू नहीं
उधार साम्य अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5.72	लागू नहीं
प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹10/- प्रति) (तिमाही/नौ माह के लिए ट्रेडींग्स वार्षिकीकृत नहीं है)	3.56	3.55	3.67	10.26	9.90	13.53
i) बेसिक	3.56	3.55	3.67	10.26	9.90	13.53
ii) डायल्यूटिड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,965.69	लागू नहीं
डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन रिजर्व ** (वर्ष के अंत में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* इंड एस समायोजन को छोड़कर बकाया उधार ** क्रमशः 31 मार्च, 2025 को डिबेंचर डिस्ट्रिब्यूशन रिजर्व

टिप्पणियां:

- कंपनी के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों, की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 29/01/2026 को की गई है एवं इसी तिथि पर आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। यह वित्तीय परिणाम कंपनी के मेसर्स एस ए अर सी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा भी समीक्षित है।
- कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 110 प्रति शेयर पर ₹ 1.15 की दर से तीसरे अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी। तीसरे अंतरिम लाभांश की प्राप्ति के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु 7 फरवरी, 2026 रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की गई है। लाभांश का भुगतान घोषणा के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अर्थात) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 तथा 52 के अंतर्गत, स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किये गये तिमाही/नौ माह के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रत्येक सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रत्येक

www.hudco.org.in

फॉलो करें:

अन्य सेवाएं परामर्श सेवा क्षमता निर्माण

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको)
(भारत सरकार का उपक्रम) | CIN: L74899DL1970GOI005276 | GSTIN: 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय: हडको भवन, कोट 7ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29/01/2026

बीएसई लिमिटेड (URL: www.bseindia.com/corporates), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (URL: www.nseindia.com/corporates), तथा कंपनी की वेबसाइट (URL: www.hudco.org.in) पर भी उपलब्ध है।

4. लिमिटेड वित्तियम 5 2 (4) में संदर्भित अन्य कर्मिक मदों की उचित जानकारी बीएसई लिमिटेड (URL: www.bseindia.com/corporates), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (URL: www.nseindia.com/corporates), की वेबसाइट पर दी गई है तथा यह कंपनी की वेबसाइट (URL: www.hudco.org.in) पर भी उपलब्ध है।

5. तिमाही/नौ माह के दौरान लेखांकन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है अतः शुद्ध लाभ/हानि, कुल समेकित आय या कोई अन्य संबंधित वित्तीय मद(ओं) पर लेखांकन नीतियों में परिवर्तन(ओं) के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
संजय कुलश्रेष्ठ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक